



1- ऑनलाइन/ऑफलाइन विषय वस्तु

1. स्पोकन ट्यूटोरियल्स की ऑनलाइन विषय वस्तु को इस लिंक से एक्सेस किया जा सकता है
<http://spoken-tutorial.org/tutorial-search/>
2. आप ऑफलाइन अभ्यास के लिए स्पोकन ट्यूटोरियल्स इस लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं
<http://spoken-tutorial.org/cdcontent/>
3. आप इस लिंक से Foss के वर्गों को उस भाषा में डाउनलोड कर सकते हैं, जिस भाषा में आप सीखना चाहते हैं।
4. स्पोकन ट्यूटोरियल विषय वस्तु आपकी मशीन पर zip फाइल के रूप में डाउनलोड होगी।
5. zip फाइल की विषय वस्तु को एक्सट्रैक्ट करें और उन्हें एक्सेस करें।

2- अभ्यास की प्रक्रिया

1. आपको स्पोकन ट्यूटोरियल्स और फाइल्स का एक सेट दिया गया है।
2. विशिष्ट रूप से आप एक समय पर एक ट्यूटोरियल करेंगे।
3. आप स्पोकन ट्यूटोरियल सुन सकते हैं और वीडियो में दिखाए गए की तरह सारी कमांड्स को दोबारा कर सकते हैं।
4. यदि आपको उपरोक्त निर्देशों में कोई कठिनाई आती है तो आप एक बार पूरा ट्यूटोरियल सुनें और फिर दूसरी बार सुनते समय उसका अभ्यास भी करें।

3- ExpEYES

1. "Select FOSS" या "All FOSS Categories" ड्रॉप-डाउन पर क्लिक करें और "ExpEYES" चुनें।
2. "Select Language" या "All Languages" ड्रॉप-डाउन पर क्लिक करें और अपनी पसंद की भाषा (अंग्रेजी, हिन्दी, मराठी....) चुनें।
3. "Submit" बटन पर क्लिक करें।
4. आप अपने चुनाव के आधार पर ट्यूटोरियल्स की सूची देखेंगे।
5. प्रदर्शित सूची में पहले ट्यूटोरियल के साथ शुरू करें।

4- पहला ट्यूटोरियल: Introduction to ExPEYES Junior

1. "Introduction to ExPEYES Junior" विषय पर जाएँ और इस पर क्लिक करें।
2. ट्यूटोरियल को देखने के लिए Play आइकन पर क्लिक करें जो प्लेयर में स्थित है।
3. Pre-requisite प्लेयर के नीचे दिखाएगा (ऑनलाइन विषय-वस्तु के लिए)।
4. Outline, Assignments, Code Files और Slides प्लेयर के नीचे उपलब्ध हैं।
5. ब्राउज़र का साइज़ इस प्रकार समायोजित करें ताकि आप एक साथ अभ्यास करने में सक्षम हों।
6. ये ट्यूटोरियल्स उबन्टु लिनक्स वर्जन 14.04 और 14.10 पर बनाये गए हैं।
7. 3.44 मिनट से 3.59 मिनट तक ट्यूटोरियल, ExpEYES एप्लीकेशन को उबन्टु में खोलने हेतु जानकारी दिखाता है।

8. 7.15 मिनट से 7.58 मिनट तक ट्यूटोरियल, ExpEYES एप्लीकेशन को विंडोज़ में खोलने हेतु जानकारी दिखाता है।

9. विंडोज़ OS पर इंटरफ़ेस खोलने के लिए expeyes-3.0.0 फोल्डर खोलें फिर eyes-junior फोल्डर खोलें।

10. राइट क्लिक करें और croplus फाइल खोलें।

11. Python exe फाइल रन होती है और ExpEYES इंटरफ़ेस खुलता है।

4.1- अभ्यास के सामान्य निर्देश

1. अपने "Name-RollNo-Component" के साथ 'Desktop' पर एक फोल्डर बनाएं।

(उदाहरण: "Kaushik-01-Expeyes")

2. जो फाइल्स आप अपने फोल्डर में सेव करते हैं उन्हें अगली बार पहचानने के लिए एक अद्वितीय नाम दें। (उदाहरण: "Practice-1-kaushik")

3. अपने पूरे काम को अपने फोल्डर में सेव करना याद रखें।

4. यह निश्चित करेगा कि आपकी फाइल्स किसी और के साथ ओवर-राइट न हो जाएँ।

5. अपने काम को अंत में सेव करने के बजाय समय समय पर सेव करते रहें।

4.2- नियत कार्यों के लिए सामान्य निर्देश

1. ट्यूटोरियल में निर्देशित की तरह नियत कार्य करें।

2. अपने काम को अपने फोल्डर में सेव करें।

4.3- कोड फाइल्स उपयोग करने के सामान्य निर्देश

1. प्लेयर के नीचे स्थित "Code files" लिंक पर क्लिक करें और इसे अपने फोल्डर में सेव करें।

2. डाउनलोड की हुई जिप फाइल को एक्सट्रैक्ट करें।

3. आप उस विशेष ट्यूटोरियल में उपयोग हुई सारी कोड/सोर्स फाइल्स देखेंगे।

4. उस विशेष ट्यूटोरियल में दिए गए निर्देशों के आधार पर उन फाइल्स का उपयोग करें।

5. पूरे ट्यूटोरियल को प्ले करें-रोकें-अभ्यास करें।

6. एक बार ट्यूटोरियल समाप्त होने पर प्लेलिस्ट से अगला ट्यूटोरियल चुनें जो प्लेयर के दायीं ओर या नीचे स्थित है।

7. उपरोक्त सभी निर्देशों का अनुसरण करें जब तक आप इस क्रम के सारे ट्यूटोरियल्स समाप्त न कर लें।